



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 भाद्र, 1941 (श०)

संख्या- 699 राँची, शुक्रवार,

30 अगस्त, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

20 अगस्त, 2019

संख्या-14/जा०नि०-03-12/2018 का० 6589-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के विभाग के पत्रांक-12817, दिनांक-17.11.2012 द्वारा झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) की समेकित सूची परिचारित की गई है, जिसमें पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के क्रमांक-20 पर बनिया के प्रकोष्ठ में हिन्दी में "रोनियार" तथा अंग्रेजी में "Roniar" अंकित है।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड, राँची ने अपने पत्रांक-03/पि०व०आ०-17/2019/215/पि०, दिनांक-31.05.2019 द्वारा झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 2) के क्रमांक 20 में बनिया के प्रकोष्ठ में दर्ज “रोनियार” को रोमन लिपि के रूप में "Roniya" अंकित किया जाना प्रतिवेदित किया है। अतः पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-20 में बनिया के प्रकोष्ठ में दर्ज “रोनियार” जाति का अंग्रेजी रूप "Roniya" के रूप में स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस प्रकार पत्रांक-12817, दिनांक-17.11.2012 द्वारा परिचारित पत्र के साथ अनुलग्न अनुसूची-2 के क्रमांक-20 पर बनिया के प्रकोष्ठ में दर्ज “रोनियार” की अंग्रेजी वर्तनी "Roniya" समझा जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दीपक कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।
